

प्रेस नोट दिनांक-01.09.2021

(1). आज दिनांक 01.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में जनपद के दूर दराज ग्रामों से आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत मो0नं0 8810747614 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों दूर दराज से यहां तक न आना पडेगा जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र सोनकर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सूरजबली सिंह पुत्र रामशरण सिंह निवासी गोबरिया बुजुर्ग थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची महुआ अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण एवं 10 किलो लहन के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा लहन को नष्ट किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 272 भादवि0 व धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1. 05 लीटर अवैध कच्ची महुआ अपमिश्रित शराब
2. शराब बनाने के उपकरण

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र सोनकर थाना भरतकूप
2. आरक्षी संतोष कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप द्वारा जनता में भय एवं आतंक व्याप्त करने वाले अभियुक्त 1. पंकज श्रीवास्तव पुत्र स्व0 महेश प्रसाद 2. पवन श्रीवास्तव पुत्र स्व0 महेश प्रसाद नि0 गण ग्राम भैसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट 3. अजय पुत्र चंद्रशेखर 4. रामचंद्र पुत्र बिंदा यादव निवासीगण ग्राम भोला का पुरवा मजरा भैसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 3.0 के अन्तर्गत श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 01.09.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा ट्रैफिक चौराहा, LIC तिराहा, पटेल तिराहा, लक्ष्मणपुरी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन बरगढ़ में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बाजार, बस स्टैंड, बैंक में भ्रमण कर, एंटी रोमियो स्कवाड मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा खटवारा व वाजपेयी तिराहा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा ग्राम दुगांवा व बरहाई मे, एंटीरोमियो टीम थाना रैपुरा ग्राम देऊंधा में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(5). आज दिनांक-01.09.2021 को उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के फेज- 3.0 के अन्तर्गत तहसील सभागर कर्वी में श्रीमती प्रभा गुप्ता सदस्य राज्य महिला आयोग उ0प्र0 की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी की उपस्थिति में उ0प्र0 राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित मिशन शक्ति फेज-03 के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजना विषयक विधिक जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में उपस्थित महिलाओं को विभिन्न विभागों से मिलने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं योजनाओं को ग्राम स्तर पर ही महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन जैसे वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की शिकायतों को सुनकर शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया।

जागरूकता शिविर में प्रभारी महिला थाना अनुपम श्रीवास्तव, महिला शक्ति केन्द्र प्रिया माथुर एवं अन्य विभाग के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(6). आज दिनांक 31.08.2021 को पुलिस विभाग में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले (1) उ0नि0स0पु0 श्री हरिदास वर्मा (2) उ0नि0ना0पु0 श्री बलराम सिंह (3) उ0नि0ना0पु0देवेन्द्र कुमार (4) मुख्य आरक्षी मूलचन्द्र वर्मा को पुलिस लाइन सभागार में क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय एवं प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह द्वारा शॉल व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को हल्का नास्ता करवा कर मुंह मीठा करवाया गया। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुये पुलिसकर्मियों को बताया गया कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें रहें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में प्रतिसार निरीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन चित्रकूट में यातायात पुलिस कर्मियों हेतु चलाए जा रहे 07 दिवसीय कैप्सूल कोर्स का समापन किया गया। कैप्सूल कोर्स दिनांक- 23.08.2021 से 30.08.2021 तक 07 दिवस को कोर्स था जिसमें यातायात पुलिसकर्मियों को जाम की स्थिति से निपटने के तरीकों एवं जाम न लगे यातायात संचालन नियमों, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात उपकरणों जैसे- तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए प्रयोग होने वाले स्पीड वीजन रडार एवं एल्कोहल का सेवन कर वाहन चलाने वालों को चेक करने के लिए ब्रीथ एनलाइजर जैसे उपकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आउटडोर प्रशिक्षक के रूप में मुख्य आरक्षी प्रो0 आफाक खां, पीटीआई कालू राणा एवं इनडोर प्रशिक्षक के रूप में निरीक्षक अध्यापक श्री इन्द्रपाल सिंह, उ0नि0 अध्यापक श्री मनमोहन सिंह को नियुक्त किया गया था। कोर्स में 08 यातायात पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया।